



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 4, 1976/अग्रहायण 13, 1898

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 4, 1976/AGRAHAYANA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

प्रधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1976

का० नि० ग्रा० 46-ई—ग्रहमदनगर छावनी (वाडों में विभाजन) संशोधन नियम, 1976 का एक प्रारूप, छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 31 द्वारा यथाप्रपेक्षित भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०नि०ग्रा० 41-अ० तारीख 6 सितम्बर, 1976 के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 4, तारीख 13 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है ;

और उक्त राजपत्र 18 सितम्बर, 1976 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों का निदान कर लिया है ;

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 31 के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. (1) इन नियमों का नाम अहमदनगर छावनी (वार्डों में विभाजन) संशोधन नियम, 1976 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. अहमदनगर छावनी (वार्डों में विभाजन) नियम, 1970 में,
 - (1) नियम, 4 में,—
 - (i) वार्ड संख्या III से सम्बन्धित प्रविष्टि में, द्वितीय स्तम्भ में, (अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित सीट) कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;
 - (ii) वार्ड संख्या IV से सम्बन्धित प्रविष्टि में, द्वितीय स्तम्भ में, प्रविष्टि के, पश्चात् “(अनुसूचित जाति के सदस्य के लिए आरक्षित सीट)”, कोष्ठक और शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
 - (2) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“अनुसूची

(नियम 3 देखिए)

वार्डों की सीमाएं

वार्ड संख्या I

सीमा ब्राउटम रोड और हैरिस रोड के चौराहे पर छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 42 से आरम्भ होती है और छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 41, 40 और 39 के साथ-साथ होती हुई पूर्वी दिशा की ओर छावनी स्तम्भ संख्या 38 तक जाती है और वहां से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर सीमा स्तम्भ संख्या 37, 36 और 35 के साथ-साथ होती हुई भिगर नाले के दाहिने तट पर स्थित छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 34 तक जाती है तथा वहां से वह भिगर नाले के साथ-साथ पश्चिमी दिशा की ओर सुभाष रोड तथा भिगर नाले के जंक्शन पर एक स्थान की ओर जाती है और तब नाले के पार सुभाष रोड के सहारे 100 मीटर की दूरी तक दक्षिणी दिशा की ओर घूमती है । वहां से सीमा पश्चिमी दिशा की ओर भिगर नाले के बाएं तट के सहारे होती हुई नाले और के०बी०के०एस० ईरानी रोड के जंक्शन तक घूमती है तथा उसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में के०बी०के०एस० ईरानी रोड की ओर उसके और किचनर रोड के जंक्शन पर जाती है और वहां से किचनर रोड के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में किचनर रोड तथा मंस रोड के जंक्शन पर बढ़ जाती है । तत्पश्चात् वह दक्षिण पूर्वी दिशा में मंस रोड के साथ-साथ उसके और हंटर रोड के जंक्शन पर बंगला नं० 1 के सामने से मुड़ जाती है और तब दक्षिण पश्चिमी दिशा में हंटर रोड के साथ-साथ उसके और एल्फिस्टन रोड पर एक स्थान तक जाती है तथा वहां से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर एल्फिस्टन रोड के साथ-साथ उसके और नागरवाला रोड के जंक्शन पर एक स्थान पर मुड़ती है तथा उसके बाद दक्षिण पूर्वी दिशा में नागरवाला रोड के साथ-साथ उसके और शोलापुर रोड के जंक्शन पर एक स्थान पर मुड़ती है तथा शोलापुर रोड को पार करके छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 11-ख पर जा कर मिलती है । वहां से वह उत्तरी दिशा में टेड़े मेड़े रास्ते से छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 11, 10, 9 और 8 से होती

हुई भिंगर नाले तक जाती है । तत्पश्चात् वह भिंगर नाले को पार करके नाले के बाहिने तट के किनारे से उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर मुड़कर नाले और शोलापुर रोड तथा एलफिस्टन रोड के जंक्शन तक जाकर मुड़ जाती है तथा उसके पश्चात् वह उत्तर पश्चिमी दिशा को एलफिस्टन रोड के साथ-साथ उसके और पूना रोड के जंक्शन पर एक स्थान तक जा कर मुड़ जाती है और तब पूर्वी दिशा में पूना रोड के साथ-साथ चलती हुई उसके और हैरिस रोड के जंक्शन पर एक स्थान तक जाती है और तब उत्तरी दिशा में हैरिस रोड के साथ-साथ उसके और किंग रोड के जंक्शन पर एक स्थान तक जाती है और तब उत्तर पश्चिमी दिशा में हैरिस रोड के साथ-साथ उसके और मंगल गेट रोड के जंक्शन पर एक स्थान तक जा कर मुड़ जाती है तथा तब उत्तरी दिशा में हैरिस रोड के साथ-साथ उसके और आउट्राम रोड के जंक्शन अर्थात् आरम्भ होने वाले स्थान तक जाती है ।

पार्थ सं. II

सीमा छावनी सीमा स्तम्भ सं० 28 से जोकि अम्बेदकर रोड पर स्थित है, आरम्भ होती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 27 तक जाती है और तब दक्षिण दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ सं० 26ए और 26 तक आती है तथा वहां से दक्षिण पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 25ए और 25 को घूमती है तथा उसके पश्चात् दक्षिण पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 24 को घूमती है और तब पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 21 तक, छावनी सीमा स्तम्भ सं० 23, 22ए, 22, 21 बी और 21ए से होती हुई घूमती है तथा उसके पश्चात् दक्षिण पूर्वी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 19, 20, 19बी, 19ए, 19ए की ओर घूमती है । तत्पश्चात् सीमा उत्तर पश्चिमी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 15 तक छावनी बोर्ड स्तम्भ सं० 18सी, 18बी 18ए, 18, 17बी, 17सी, 17 और 16 से होती हुई घूमती है और तब वह दक्षिण पश्चिमी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 14ए और 14 तक घूमकर आती है और वहां से उत्तर-पश्चिमी दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 13ए और 13 को, जोकि नागरवाला रोड पर स्थित है, घूमकर आती है और वहां से उत्तर पूर्वी दिशा में नागरवाला सड़क के साथ-साथ उसके और ऐलफिस्टन रोड के जंक्शन के एक स्थान पर घूमती है और तब पश्चिमी दिशा में ऐलफिस्टन रोड के साथ-साथ घूमती हुई उसके और हण्टर रोड के जंक्शन तक जाती है और वहां से उत्तर पूर्वी दिशा में हण्टर रोड के साथ-साथ उसके और डा० अम्बेदकर रोड के जंक्शन तक जाती है तथा वहां से पूर्वी दिशा में डा० अम्बेदकर रोड के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ सं० 28 तक, अर्थात्, आरम्भ के स्थान तक जाती है ।

पार्थ सं. III

सीमा का आरम्भ सुभाष रोड और भिंगर नामा के जंक्शन पर एक स्थान से होता है और वहां से वह दक्षिण दिशा में सुभाष रोड के साथ-साथ उसके और रंगर गली के साथ उसके जंक्शन पर भिंगर मकान सं० 117 पर घूमती है और तब पूर्वी दिशा की ओर रंगर गली के साथ-साथ उसके और मोमन गली के जंक्शन की ओर घूमती है और तब उस स्थान से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर घाने गली के साथ-साथ भिंगर मकान सं० 22 के उत्तर पूर्व को कोने तक आती है और तब घाने गली के साथ-साथ दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर भिंगर मकान सं० 6 के दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और तब केंटोपेंट गर्ल्स स्कूल के पीछे गली के साथ-साथ पश्चिम दिशा में भिंगर मकान सं० 39 के दक्षिण पश्चिम की ओर जाती है और तब केंटोपेंट गर्ल्स स्कूल की बायाँ से दक्षिण दिशा में मुड़कर उस स्कूल और

डा० अम्बेदकर रोड के जंक्शन तक जाती है और वहां से पश्चिमी दिशा में डा० अम्बेदकर रोड के साथ साथ उसके और लोकमान्य तिलक रोड के जंक्शन पर एक स्थान तक एस टी-पिक-अप रोड की ओर घूम जाती है और तब लोकमान्य तिलक रोड के साथ साथ दक्षिण दिशा में सदर बाजार मकान सं० 304 ख के दक्षिण पश्चिम कोने तक जाती है और वहां से पूर्वी दिशा में सदर बाजार मकान सं० 304 ख के उत्तरी दीवाल के साथ साथ होती हुई भोरा गली स्थित मकान सं० 304 के उत्तर पूर्वी कोने से जाती है और वहां से भोरा गली के साथ साथ दक्षिण की ओर सदर बाजार मकान सं० 274क के दक्षिण पूर्व की ओर चली जाती है और तब मकान सं० 274क के दक्षिणी दीवाल के माहरे होती हुई पश्चिम में लोकमान्य तिलक रोड तक चली जाती है और तब लोकमान्य तिलक रोड के साथ साथ उसके और के० बी० और के० एस० ईरानी रोड के जंक्शन तक दक्षिण दिशा की ओर घूम जाती है और इस स्थान से वह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर के० बी० के० एस० ईरानी रोड के साथ साथ उसके और डा० अम्बेदकर रोड के जंक्शन तक घूमकर जाती है और तब पश्चिमी दिशा में डा० अम्बेदकर रोड के साथ साथ उसके और भिंगर नाले के बायें तट के जंक्शन तक जाती है तथा वहां से उत्तर पूर्वी दिशा में भिंगर नाले के बायें तट के साथ साथ होती हुई उस नाले और सुभाष रोड के जंक्शन तक अर्थात् आरम्भ के स्थान तक जाती है ।

पार्श्व संख्या IV

सीमा का आरम्भ लोकमान्य तिलक रोड, डा० अम्बेदकर रोड और सुभाष रोड के जंक्शन पर एक स्थान से होता है और वहां से वह डा० अम्बेदकर रोड के साथ साथ पूर्वी दिशा में उसके और हंटर रोड के जंक्शन तक जाती है तथा तब दक्षिण पश्चिमी दिशा में हंटर रोड के साथ साथ उसके और मैस रोड के जंक्शन की ओर बंगला सं० 1 के सामने घूम जाती है और तब उत्तर पश्चिम दिशा में मैस रोड के साथ साथ उसके और किचनर रोड के जंक्शन की ओर घूमती है और तब उत्तरी दिशा में किचनर रोड के साथ साथ उसके और के० बी० के० एस० ईरानी रोड तथा लोकमान्य तिलक रोड के जंक्शन तक घूमती है और तब उत्तरी दिशा में लोकमान्य तिलक रोड के साथ साथ सदर बाजार मकान सं० 274ए के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर एक स्थान को घूम जाती है और वहां से पूर्व दिशा में घर सं० 274ए के दक्षिणी दीवाल के साथ साथ उसके दक्षिण पूर्वी कोने तक जाती है तथा इस स्थान से भोरा गली के साथ साथ उत्तरी दिशा में मकान सं० 304बी के उत्तर पूर्वी कोने तक जाती है और वहां से पश्चिमी दिशा में मकान सं० 304 बी के उत्तरी दीवाल के साथ साथ लोकमान्य तिलक रोड तक चली जाती है तथा वहां से उत्तरी दिशा में लोकमान्य तिलक रोड के साथ साथ घूमती हुई लोकमान्य तिलक रोड के जंक्शन तक अर्थात् आरम्भ के स्थान तक चली जाती है ।

पार्श्व संख्या V

सीमा का आरम्भ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 32-ए से होता है और वहां से सीमा दक्षिण की दिशा में भिंगर नाले को पार करती हुई 30 मीटर की दूरी तक जाकर क्रिमेयन गण्ड रोड से मिलने के लिए जो भिंगर गण्ड के पूर्वी किनारे पर है, भिंगर मकान संख्या 445 के सामने एक स्थान तक जाती है और वहां से पूर्वी दिशा में लेन के साथ-साथ घूमती है और मकान संख्या 446 के सामने महात्मा गांधी रोड को स्पर्श करती है । वहां से सीमा दक्षिणी दिशा में महात्मा गांधी रोड के साथ-साथ उसके और डा० अम्बेदकर रोड के जंक्शन तक भिंगर गेट के पास तक घूमती है और वहां से दक्षिण पश्चिमी दिशा में डा० अम्बेदकर रोड के साथ-साथ केन्टोनमेंट गर्ल्स स्कूल के दक्षिण पश्चिमी कोने तक जाती है तथा वहां से गर्ल्स स्कूल की दीवार के साथ-साथ उत्तरी दिशा में भिंगर मकान संख्या 41 के

दक्षिण पश्चिमी कोने तक मुड़ कर जाती है तथा वहां से गर्ल्स स्कूल के पीछे लेन के साथ-साथ पूर्वी दिशा में भिगर मकान संख्या 6 के दक्षिण पूर्वी कोने पर एक स्थान तक जाती है और तब वह उत्तरी दिशा में दाने गली के साथ-साथ भिगर मकान संख्या 22 के उत्तर पूर्वी कोने पर एक स्थान तक घूमती है और तब उत्तर पश्चिमी दिशा में दाने गली के साथ-साथ उसके और रंगर गली के जंक्शन के लिए एक स्थान पर जहां वह मोमिन गली से आकर मिलती है, घूमती है और वहां से रंगर गली के साथ-साथ घूमती हुई उत्तर दिशा की ओर भिगर नाले और सुभाष रोड जंक्शन तक जाती है तथा आगे भिगर नाला पार करके 100 मीटर की दूरी तक आकर भिगर नाले के दाहिने तट को स्पर्श करती है तथा आगे उत्तर पूर्वी दिशा की ओर छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 34, 33, 2-सी से आकर मिलती है और उसके आगे छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 32-बी तक जाकर उत्तर दिशा की ओर स्तम्भ संख्या 32-सी तक जाती है तथा वहां से उत्तरी दिशा में छावनी की सीमा के साथ-साथ चलती हुई छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 32-बी तक जाती है तथा तब उत्तर पूर्वी दिशा में छावनी की सीमा के साथ-साथ होती हुई आरम्भ के स्थान अर्थात् स्तम्भ संख्या 32-क से आकर मिलती है ।

बांड संख्या VI

सीमा का आरम्भ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 32-ए से होता है जहां से वह पूर्व दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 32, 31-बी, 31ए, 30-बी तक जाती है और उसके आगे पूर्व दिशा में छावनी सीमा के साथ-साथ ए 10ई० एस० पम्पिंग स्टेशन रोड को स्पर्श करने के लिए मुड़ जाती है तथा तब दक्षिणी दिशा में ए 10 ई० एस० पम्पिंग स्टेशन रोड के साथ-साथ होती हुई उसके और नेहरू चौक रोड के जंक्शन तक जाती है और तब पश्चिमी दिशा की ओर नेहरू चौक रोड के साथ-साथ घूमती हुई उसके और माल गली के जंक्शन तक मकान संख्या 674 के सामने तक जाती है तथा वहां से दक्षिणी दिशा की ओर माल गली के साथ-साथ मुड़ती हुई उसके लकर गली के जंक्शन तक जाती है तथा वहां से दक्षिण पश्चिमी दिशा में माल गली के साथ-साथ होती हुई उसके और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन तक भिगर गेट के पास तक जाती है तथा वहां से महात्मा गांधी रोड के साथ-साथ उत्तरी दिशा में मुड़कर भिगर मकान संख्या 446 के सामने के स्थान तक जाती है और वहां से पश्चिमी दिशा में घूम कर गली के साथ-साथ भिगर मकान संख्या 445 के निकट तक स्थान में जाती है तथा वहां से उत्तरी दिशा में घूम कर क्रिश्चन ग्राउंड रोड के साथ-साथ भिगर नाले के बाएं तट तक जाती है और उसके पश्चात् वह उत्तरी दिशा में भिगर नाला पार करके 30 मीटर आगे आरम्भ के स्थान पर जा कर मिल जाती है ।

बांड संख्या VII

सीमा का आरम्भ छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 30-ए से होता है जहां से वह छावनी सीमा के साथ-साथ दक्षिण दिशा में छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 30 और 29-ए तक जाती है तथा तब दक्षिण पूर्वी दिशा में घूम कर छावनी की सीमा के साथ चलती हुई छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 28 और 29-ए तक जाती है और तब पूर्वी दिशा में घूमकर छावनी सीमा के साथ-साथ होती हुई छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 28 तक चली जाती है और उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर घूमकर छावनी सीमा के साथ-साथ उसके और डा० अम्बेदकर रोड के जंक्शन को छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 28 तक जाती है और वहां से पश्चिमी दिशा में घूमकर डा० अम्बेदकर रोड के साथ-साथ होती हुई उसके और महात्मा गांधी रोड के जंक्शन तक भिगर गेट के जंक्शन तक जाती है तथा वहां से उत्तरी दिशा में महात्मा गांधी रोड के साथ-साथ भिगर मकान संख्या 526 के सामने एक स्थान तक जाती है और माल गली को स्पर्श करती

है और अब नाल गली के साथ साथ चलती हुई पूर्वी दिशा की ओर टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए माल गली और लकर गली के जंक्शन को जाती है तथा उस स्थान से नाल गली के साथ साथ होती हुई उत्तर पूर्वी दिशा में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर माल गली तथा नेहरू चौक रोड जंक्शन को मकान संख्या 674 के सामने तक जाती है तथा वहाँ से नेहरू चौक रोड के साथ चलती हुई पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाती है और नेहरू चौक रोड तथा एम० ई० एस० पम्पिंग स्टेशन रोड के जंक्शन तक जाती है तथा इस स्थान से एम० ई० एस० पम्पिंग रोड के साथ साथ उत्तर की ओर घूमती हुई उस स्थान तक जाती है जहाँ वह छावनी सीमा से मिलती है और आगे पूर्वी दिशा की ओर घूमकर छावनी सीमा के साथ साथ प्रारम्भ के स्थान तक अर्थात् छावनी सीमा स्तम्भ संख्या 30-क तक चली जाती है।

[फा० सं० 29/10/सी/एन एण्ड सी/75/3718-नी/डी० (क्यू एड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th December 1976

S.R.O. 46-E.—Whereas draft of the Ahmednagar Cantonment (Division into Wards) Amendment Rules, 1976, was published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence, No. S.R.O. 41-E, dated the 6th September, 1976 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, dated the 13th September, 1976, as required by section 31 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), for inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the aforesaid Gazette was made available to the public on the 18th September, 1976;

And whereas the objections and suggestions received before the period so specified have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 31 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

RULES

1. (1) These rules may be called the Ahmednagar Cantonment (Division into Wards) Amendment Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ahmednagar Cantonment (Division into Wards) Rules, 1970:—

(1) in rule 4:—

(i) in the entry relating to Ward No. III, in the second column, the brackets and words “(Seat reserved for a member of the Scheduled Castes)” shall be omitted;

(ii) in the entry relating to Ward No. IV, in the second column, after the entry, the brackets and words “(Seat reserved for a member of the Scheduled Castes)” shall be inserted;

(2) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

THE SCHEDULE

(See rule 3)

BOUNDARIES OF WARDS

WARD NO. I

The boundary starts from Cantonment Boundary Pillar No. 42 at the junction of Outram Road and Harris Road and proceeds in an easterly direction along the Cantonment Boundary through Pillars No. 41, 40 and 39 upto Cantonment Boundary

Pillar No. 38 and then runs in south-easterly direction along Boundary through Pillar No. 37, 36 and 35 upto Cantonment Boundary Pillar No. 34 situated on the right bank of Bhingar Nullah and therefrom it turns towards westerly direction along Bhingar Nullah to a point at the junction of Subhash Road and Bhingar Nullah and then turns in southerly direction across Nullah to a distance of 100 metres along with Subhash Road and then turns in westerly direction along left bank of Bhingar Nullah to its junction with K.B.K.S. Irani Road and then turns to south easterly direction K.B.K.S. Irani Road to its junction with Kitchner Road and then turns in south westerly direction along Kitchner Road at a point at the junction of Kitchner Road with Mess Road and then turns in south easterly direction along with Mess Road at its junction with Hunter Road opposite bungalow No. 1 and then in south-westerly direction along with Hunter Road to a point at its junction with Elphinstone Road and then turns to south-easterly direction along with Elphinstone Road at a point at its junction with Nagarwalla Road and then turns in south-westerly direction along with Nagarwalla Road to a point at its junction with Sholapur Road and crossing Sholapur Road to meet the Cantonment Boundary Pillar No. 11-B and then runs in northerly direction in a zig-zag way along Cantonment Boundary upto Bhingar Nullah through Cantonment Boundary Pillar Nos. 11, 10, 9 and 8 thereafter it crosses Bhingar Nullah and then runs along the right bank of the Nullah in north-easterly direction upto its junction with Sholapur Road and Elphinstone Road crossing and then turns to north-westerly direction along Elphinstone Road upto a point at its junction with Poona Road and then turns in easterly direction along Poona Road to a point at its junction with Harris Road and then in northerly direction along Harris Road to a point at its junction with Kings Road and then turns north-west direction along with Harris Road to a point at its junction with Mangal Gate Road and then turns in northerly direction along Harris Road upto its junction with Outram Road i.e. the starting point.

WARD NC. II

The Boundary starts from Cantonment Boundary Pillar No. 28 which is situated at Dr. Ambedkar Road and runs in south-easterly direction along the Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 27 and then in southerly direction to Cantonment Boundary Pillar No. 26-A and 26 and then turns in south-easterly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 25-A and 25 and thereafter turns in south-westerly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 24 and then turns in easterly direction along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary Pillar No. 21 through Cantonment Boundary Pillar Nos. 23, 22-A, 22, 21-B and 21-A and then turns in south-easterly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 19, Cantonment Boundary Pillar Nos. 20, 19-B, 19-A and 19-a. Thence it turns in north-westerly direction along Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary Pillar No. 15 through Cantonment Boundary Pillar Nos. 18-C, 18-B, 18-A, 18, 17-B, 17-A, 17 and 16 and then turns in south-westerly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 14-A and 14 and then turns to north-westerly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 13-A and 13 situated at Nagarwalla Road and then turns in north easterly direction along Nagarwalla Road to a point at its junction with Elphinstone Road and then turns along Elphinstone Road in westerly direction upto its junction with Hunter Road and then turns in north-easterly direction along with Hunter Road to a point at its junction with Dr. Ambedkar Road and then runs in easterly direction along Dr. Ambedkar Road upto Cantonment Boundary Pillar No. 28 i.e. the starting point.

WARD NO. III

The Boundary starts from a point at the junction of Subhash Road with Bhingar Nullah and runs in southerly direction along with Subhash Road at its junction with Rangar Galli near House No. 117 Bhingar and then turns towards easterly direction along Rangar Galli to its junction with Momin Galli and then from this point runs in south-easterly direction along Dane Galli upto North East corner of House No. 22 Bhingar and then turns along Dane Galli towards southerly direction upto south-east corner of House No. 6 Bhingar and then runs along a lane behind Cantonment Girls School in westerly direction upto south-western corner of House No. 39 Bhingar and then turns in Southern direction with Cantonment Girls School wall upto its junction with Dr. Ambedkar Road and then turns to westerly direction along Dr. Ambedkar Road to a point at its junction with Lokmanya Tilak Road opposite S.T. pick-up shed and then along Lokmanya Tilak Road in southerly direction upto north-west corner of House No. 304-B Sadar Bazaar and then turns to easterly direction along northern wall of House No. 304-B Sadar

Bazaar upto north-east corner of House No. 304 on Bhora Galli and then turns towards south along Bhora Galli upto south-east corner of House No. 274-A Sadar Bazaar and then turns towards west along southern wall of House No. 274-A to touch the Lokmanya Tilak Road and then turns in southerly direction along Lokmanya Tilak Road upto its junction with K.B.K.S. Irani Road and from this point it turns towards north-westerly direction along K.B.K.S. Irani Road upto its junction with Dr. Ambedkar Road and then runs in westerly direction along Dr. Ambedkar Road upto its junction with Bhingar Nullah left bank and then runs in north-easterly direction along left bank of the Bhingar Nullah upto its junction with Subhash Road i.e. the starting point.

WARD NO. IV

The Boundary starts from a point at the junction of Lokmanya Tilak Road, Dr. Ambedkar Road and Subhash Road and runs along Dr. Ambedkar Road in easterly direction to its junction with Hunter Road and then turns along Hunter Road in south-westerly direction to its junction with Mess Road opposite Bungalow No. 1 and then turns towards north-westerly direction along Mess Road to its junction with Kitchner Road and then turns in northerly direction along Kitchner Road upto its junction with K.B.K.S. Irani Road and Lokmanya Tilak Road and then turns in northerly direction along Lokmanya Tilak Road to a point at the south-west corner of House No. 274-A, Sadar Bazaar and then turns in Easterly direction along southern wall of House No. 274-A upto its south-east corner and from this point runs along Bhora Galli in northern direction to north-easterly corner of House No. 304-B and then turns in westerly direction along the northern wall of House No. 304-B to meet Lokmanya Tilak Road and then turns to northerly direction along Lokmanya Tilak Road to meet the junction of Lokmanya Tilak Road i.e. the starting point.

WARD NO. V

The Boundary starts from the Cantonment Boundary Pillar No. 32-A and runs in southerly direction crossing Bhingar Nullah to a distance of 36 metres to meet the cremation ground road on the easterly side of Bhingar cremation ground upto a point opposite House No. 445 Bhingar and then turns to easterly direction along the lane and touches the Mahatma Gandhi Road opposite House No. 446 and then turns in southerly direction along with Mahatma Gandhi Road upto its junction with Dr. Ambedkar Road near Bhingar Gate and then turns to south-westerly direction along Dr. Ambedkar Road upto south-west corner of Cantonment Girls School and then turns in northerly direction along with Girls School wall upto south-west corner of House No. 39 Bhingar and then turns to easterly direction along the lane behind the Girls School upto a point on the south-east corner of House No. 6 Bhingar and then turns to northerly direction along with Dane Galli upto a point at north-east corner of House No. 22 Bhingar and then turns to north-westerly direction along with Dane Galli to its junction with Rangar Galli at a point where it meets Momin Galli and then turns along with Rangar Galli upto its junction with Subhash Road and then turns to north along Subhash Road to its junction with Bhingar Nullah and then crosses the Bhingar Nullah for a distance of 100 metres to touch the right bank of Bhingar Nullah and then turns to north-easterly direction to meet the Cantonment Boundary at Cantonment Boundary through along Pillar Nos. 34, 33, 32-C and upto Cantonment Boundary Pillar No. 32-B towards northern direction upto Pillar No. 32-C and then turns to northern direction along with Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 32-B and then in north-easterly direction along with Cantonment Boundary to meet the starting point i.e. Pillar No. 32-A.

WARD NO. VI

The Boundary starts from Cantonment Boundary Pillar No. 32-A and runs in easterly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar Nos. 32, 31-B, 31-A, 31, 30-B and runs in easterly direction along Cantonment Boundary Mal Galli upto its junction with Lakar Galli and then to south-westerly direction along the M.E.S. Pumping Station Road to its junction with Nehru Chowk and then turns to westerly direction along Nehru Chowk Road upto its junction with Mal Galli opposite House No. 674 and then turns in southern direction along with Mal Galli upto its junction with Lakar Galli and then to south-westerly direction along Mal Galli upto its junction with Mahatma Gandhi Road near Bhingar Gate and then in northerly direction along Mahatma Gandhi Road upto a point opposite House No. 446 Bhingar and then turns into westerly direction along the lane upto a

point near House No. 445 Bhingar and then turns northerly direction with cremation ground road upto left Bank of Bhingar Nullah and therefrom to northerly direction crossing Bhingar Nullah 30 metres to meet the starting point.

WARD NO. VII

The Boundary starts from Cantonment Boundary Pillar No. 30-A and runs along Cantonment Boundary in Southerly direction upto Cantonment Boundary Pillar Nos. 30 and 29-A and then runs in south-easterly direction along the Cantonment Boundary upto Cantonment Boundary Pillar Nos. 29 and 28-B and turns to easterly direction along Cantonment Boundary to Cantonment Boundary Pillar No. 28-A and then turns to southern direction along Cantonment Boundary to its junction with Dr. Ambedkar Road at Cantonment Boundary Pillar No. 28 and then turns in westerly direction along Dr. Ambedkar Road upto its junction with Mahatma Gandhi Road near Bhingar Gate and then turns to northerly direction along with Mahatma Gandhi Road upto a point opposite House No. 528 Bhingar touching Mal Galli and then turns to north-easterly direction along with Mal Galli in a zig-zag way to its junction with Lakar Galli and then from this point along with Mal Galli in north-eastern direction in a zig-zag way to its junction with Nehru Chowk Road opposite House No. 674 and then along Nehru Chowk Road runs in easterly direction upto its junction with M.E.S. Pumping Station Road and from this point it turns along M.E.S. Pumping Station Road towards North direction to a point it touches the Cantonment Boundary and then turns in an easterly direction along the Cantonment Boundary to meet the starting point i.e. Cantonment Boundary Pillar No. 30-A.

[File No. 29/10/C/L&C/76/3718-C/D(Q&C)]

कां० नि० प्रा० 47-ई.—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 9 जनवरी 1977 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को अहमदनगर छावनी में साधारण निर्वाचन किये जाएंगे।

[का० सं० 29/10/वी/एन एण्ड सी/76/3718-सी/1/डी०(क्यू एण्ड सी०)]

म० ला० दवे, संयुक्त सचिव।

S.R.O. 47-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby fixes 9th January, 1977 as the date on which elections in Ahmednagar Cantonment shall be held.

[File No. 29/10/C/L&C/76/3718-C/1/D(Q&C)]

M. L. DAVE, Jt. Secy.

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

